

# Commercial Engineers & Body Builders Co. Limited



AN ISO/TS 16949:2009 Company  
CIN-L24231UP1979PLC004837

Regd. Office : 84/105-A, G.T. Road, Kanpur Mahanagar, Kanpur - 208003 (U.P.) INDIA Email Id – cs@cebbco.com  
Head Office : 48, Vandana Vihaar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) Website – www.cebbco.com

May 11, 2019

To,

The Secretary,  
Bombay Stock Exchange Limited,  
25<sup>th</sup> Floor, P J Towers,  
Dalal Street,  
**MUMBAI - 400 001**  
**Fax No.022 2272 2061/022 2272**  
**2041**

The Secretary  
National Stock Exchange of India Ltd  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor, Plot No C/1 G  
Block, Bandra Kurla Complex, Bandra  
(East)  
**Mumbai 400051**  
**Fax No. 022-2659 8237/38,**  
**66418124/25/26**

Sub:- Publication of Notice for Shifting of Registered Office from the State of U.P. to M.P.

Ref :- Scrip Code 533272

NSE :- CEBBCO

Dear Sir / Madam,

We hereby would like to inform you that, we have duly published a notice in Rashtriya Sahara and Financial Express Newspaper (Kanpur, U.P.) on 10.05.2019 with regard to shifting of registered office from the State of Uttar Pradesh to the State of Madhya Pradesh.

Please find enclosed herewith a copy of the paper cutting of the same.

This for your intimation and record

For COMMERCIAL ENGINEERS AND BODY BUILDERS CO. LIMITED

  
Amit K Jain  
Company Secretary



Factory (Unit I) : 21,22,33,34, Industrial Area Richhai, Jabalpur - 482010 M.P., Tel. +91-761-233 0817 / 872, Fax : 0761-2331488  
Factory (Unit II) : NH12-A, Village Udaipura, Teh. Niwas, Distt. Mandla - 481661 M.P., Tel. +91-7643-227403, 227389  
Factory (Unit III) : Plot No. 690 to 693 & 751 to 756, Sector III, Industrial Area, Pithampur, Distt. Dhar, Tel. - 07292-407981  
Factory (Unit IV) : Industrial Area Richhai, Jabalpur - 482010 M.P.  
Factory (Unit V) : Plot No. 742, Asangi Phase Area, Saraikela, Jharkhand - 932109 Tel. 0657-2200251 / 252  
Factory (Unit VI) : Village Imlai, Near Deori Railway Station, P.O. Panagar, Jabalpur - 483220



**PUBLIC NOTICE/TENDER NOTICE**

SR. NO. : 1  
 NAME OF DEPARTMENT/BOARD/CORP./AUTH. : UHVN,  
 NAME OF WORK/NOTICE/TENDER : Extension of 114 Km Lines with Bifurcation/Tribulation of Overloaded Feeders,  
 Augmentation of Capacity of HT Line and New DT, under Operation Circle, UHVN, Kathal on turnkey basis.  
 OPENING DATE CLOSING DATE (TIME) : 06.20.2019 15:00 hrs. (06.20.2019 13.00 hrs.)  
 AMOUNT/ESTD. APPROX. : Rs. 60.81 Crores

**WEBSITE OF THE DEPARTMENT :** www.uhvnhn.org  
**MOBILE OFFICER :** CONTACTS : M.M. CEPD,CA, UHVN, Panchkula Ph. No. 0172-2570431, E-mail: mcepd@uhvnhn.org  
**INDOAL OFFICER :** 247P&D/2019-20 (Bid No. 591)  
**TENDER REF. NO./TENDER NO. :** NT No. 247P&D/2019-20 (Bid No. 591)

78384997

Stamp and Signature of the Issuing Authority

**PUBLIC NOTICE**

**ICICI Bank** Registered office: Landmark, Race Course Circle, Vadodra 390 007.  
 Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.  
**ICICI Bank Limited**

**GOLD AUCTION CUM INVITATION NOTICE**

The below mentioned borrower has been issued notice to pay off its outstanding amount towards the facility against gold ornaments. Facility is availed by their ICICI Bank Limited (ICBI). We are constrained to conduct an auction of pledged gold ornaments on May 02, 2019, as they have failed to pay the dues. ICBI Bank has authority to remove auction charges the auction date without any prior notice. Auction will be held online - <http://www.auction.proceer.com> between 12.30 pm to 3.30 pm. For detailed Terms and conditions, please log into web site. In case of deceased borrower, all conditions will be applicable to legal heirs.

Loan A/C No.	Customer Name	Loan A/C No.	Customer Name	Loan A/C No.	Customer Name
16480000211	Jyoti Arvind Mhatre	04830000471	Bijan Lal	25726000141	Adhishwar Singh
21570000052	Kishor Lal	24600000195	Amoo Jai	25726000147	Sanjay Kumar
14080000241	Raj Kishan	24600000195	Amoo Jai	25726000147	Sanjay Kumar

Date : 10.05.2019  
 Place : Baramulla, Reasi, Samba, Singra, Anantnag  
 For ICICI Bank Limited

**State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक**

Stressed Assets Recovery Branch-II, 184, 4th Floor, SBI House, Arya Samaj Road, Karol Bagh New Delhi-110005  
 Email: sbi521@sbil.co.in

**POSSESSION NOTICE (Appendix W) Under Rule 9(1)**

Whereas, the undersigned being the authorized officer of the State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch II, 184, 4th Floor, SBI House, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 9(1) of the Security Interest Act, 2002, has issued a Demand Notice Dated 22.02.2019 calling upon Sh. Mittal Prakash Singh (Borrower) and Sh. Lalit Kumar (Guarantor) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 18,53,57,05.00 as on 20.01.2019 (Rupees Eighteen Lacs Nineteen Thousand Five Hundred Seventy Seven and Paise Five Only) with further interest, expenses and other charges etc. thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower/guarantor having failed to pay the amount mentioned in the notice/borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of section 13 of the Act read with rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on the 7th day of May of the year 2019.

The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property with a subject to the notice dated 20.01.2019. Demand Notice Dated 22.02.2019 calling upon Sh. Mittal Prakash Singh (Borrower) and Sh. Lalit Kumar (Guarantor) to repay the amount of Rs. 18,53,57,05.00 as on 20.01.2019 (Rupees Eighteen Lacs Nineteen Thousand Five Hundred Seventy Seven and Paise Five Only) etc., thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of section 8(1) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

Property owned by: All part and parcel of Residential Flat No. 40-A, Ground Floor, Govindpuram Residency, Ghaziabad.  
 Place: Govindpuram, Ghaziabad  
 Date: 07.05.2019

Authorised Officer  
 State Bank of India

**OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, DELHI**

4th FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, PATEL CHOWK, NEW DELHI-110001

R.C. No. 66/2014 DATED: 03.05.2019

**SALE PROCLAMATION**

**PROCLAMATION OF SALE UNDER RULE 38, 5(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT, 1993**

**BANK OF INDIA VS MR. KULDEEP SHARMA & OTHERS**

To,  
 CD No. 1. Mr. Kuldeep Sharma, S/o Shri Mahaveer Parshad Sharma  
 Proprietor M/s Mahaveer & Sons  
 10302, West Sakshik Park,  
 Street No. 1, Shahdara, Delhi-110032

CD No. 2. Mr. Deepak Bhargava, S/o Shri Hanuman Prasad Bhargava,  
 D-16, Pandav Nagar, Village Ghonda Nehm Ka Bangal  
 Alias Patparganj, Illaqa Shahdara New Delhi-110032

Whereas you have failed to pay the sum of Rs. 46,81,387.15/- (Rupees Forty Six Lacs Eighty One Thousand Three Hundred Eighty Seven and Paise Only) has become due from you as per Recovery Certificate drawn on DA No 345/2011/DRT-III by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-III, Delhi along with cost, incidental expenses and interest payable @ 13% p.a simple interest w.e.f. 15.10.2011, as per certificate.

And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said Certificate.

Notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the said property shall be sold on 20.06.2019 between 3.00 PM to 4.00 PM with full auction clause in case of bid last minutes before closing, if required by e-auction and bidding shall take place through "On Line Electronic Bidding" through website- <http://www.drt.auctionqtr.com> through service provider M/s e-Procurement Technologies Ltd. (ABC Procurve, A-201/208, Wall Street-II, Opp. Orient Club Near Gajpur College, Ellis Bridge, Gandhinagar, Gandhinagar (India) Tel: +91 079 44233086/91867818/8182/842831/832 Fax +91 79 40016876. In case of any query, Contact Mr. Kushal Kohary Mobile No. 09898699773 email: kushal@auctionqtr.com, Mr. Ritkin, Mo. 0997851588, email: ritkin@auctionqtr.com

For further details Contact Mr. Neeraj Rastogi, Officer of CH Bank, having mobile no. 9871286176.

The sale will be of the property of the defendant above named as mentioned in the schedule below and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedule attached to each lot.

No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, however, either directly or indirectly but for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold, may if he is subject to the conditions prescribed in Second Schedule of the Income Tax Act, 1961 and the rules made there under and in the following conditions.

The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation.

1. The description of properties, Reserve Price and EMD are as under:

S.No.	Property Particulars	Reserve price/ EMD
1.	Property Shop bearing private No. 28 on First Floor without roof lights, area measuring 16.9 ft. x 8 ft. of the property bearing municipal No. 3071, 3072 and part of 3073, Ward No. XI, area measuring about 543 sq. yds. Situated at Kucha Sadullah Khan, Partap Street Near Golcha Cinema, FAIZ Bazar, Darya Ganj, New Delhi	Rs. 6,00,000/- (Rupees Six Lakhs Only) EMD: 60,000/-(Rupees Sixty Thousand Only)

The properties shall not be sold below the reserve price.  
 The amount by which the bid exceeds the reserve price shall be Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousands Only). In the event of any dispute arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the property shall at once be again put up to auction.  
 The highest bidder shall be declared to be the successful highest bidder. It shall be in the discretion of the undersigned to decline/acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so.  
 EMD shall be deposited by 18.06.2019 by way of DD/pay order in favour of Recovery Officer-I, Debt Recovery Tribunal-III, Delhi in the sealed cover. EMD deposited thereafter shall not be considered for participation in the auction.  
 The copy of PAN card, Address proof and identity proof, E-mail ID, Mobile No. and declaration if they are bidding on their own behalf or on behalf of their principals. In the latter case, they shall be required to deposit their authority, and in default their bids shall be rejected. In case of the company copy of resolution passed by the board members of the company or any other document confirming representation/ attorney of the company and the receipt/counter file of such deposit should reach to the said service provider or CH Bank by e-mail or otherwise by the said date and hard copy shall be submitted before the Recovery Officer-I, DRT-III, Delhi.  
 The successful highest bidder shall deposit the final bid amount after adjustment of EMD by next banking working day i.e. by 3.00 PM. In the said account as per detail mentioned in para above.  
 The successful highest bidder shall deposit the balance 75% of final bid amount on or before 15th day from the date of sale of the property. If the 15th day is Sunday or other Holiday, then on the first banking working day after the 15th day. In case of non-deposit of the balance 75% of the above the successful highest bidder shall also deposit purchase fee with Recovery Officer-I, DRT-III @ 2% up to Rs. 1,00,000/- and @ 1% of the excess of said amount of Rs. 1,00,000/- through DD in favour of The Registrar, DRT-III, Delhi.  
 Property shall remain open for inspection by prospective bidders on 14.06.2019 from 11.00 am to 4.00 pm.  
 In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be resold, after the issue of fresh proclamation. Sale, the deposit of the balance 75% of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting successful highest bidder shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.  
 The property is being sold on "AS IS WHERE IS BASIS AND AS IS WHAT IS BASIS".  
 The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any time without assigning any reason.  
 There is no detail of revenue/encumbrance or claim against the properties in the knowledge of undersigned at this stage. However, prospective bidders are advised to make their own due diligence w.r.t. dues of electricity/waterhouse taxes or any other encumbrance etc., in their own interest, before deposit of EMD.  
 CH Bank is directed to authenticate and check the veracity of the details given herein.

Given under my hand and seal on this 3rd day of May, 2019. (ANIL KUMAR YADAV)  
 RECOVERY OFFICER - I,  
 DRT-III, DELHI

**PUBLIC NOTICE**

(Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)

Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another.

Before the Central Government/Regional Director  
 Northern Region, Delhi

In the matter of the Companies Act, 2013 (Section 13(4) of the Companies Act, 2013 and Rule 30(6) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of Measure Engineering Private limited having its Registered Office at 110 PANT NAGAR, JANGPURA EXTENSION, NEW DELHI-110014

Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 29th March 2019 to enable the company to change its Registered Office from 'NCT of Delhi to the State of Haryana'. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post or by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post or by filing objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2, 2nd Floor, Patayaram Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen days from the date of publication of this Notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below.

"at 110 Pant Nagar, Jangpura Extension, New Delhi-110014"

For and on behalf of the Board  
 METCURE ENGINEERING PRIVATE LIMITED

Place: Delhi  
 Date: 07th May 2019

SIMMI SHARMA  
 Director  
 DIN: 00921502

**Commercial Engineers & Body Builders Co. Ltd**

Reg. Office: 84/105-A, G. Road, Kanpur, Mahanagar, Kanpur (U.P.) Pin 208003  
**CIN: L24231UP1979LKP0004837**  
 Tel. No. 0512-252029/0761-2661336  
 Website: www.cebbc.co. Email: cs@cebbc.co

Before the Regional Director (Northern Region), New Delhi

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

**Petitioner**

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to the Central Government through the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on 9th March, 2019 to enable the Company to shift its Registered Office from the State of Uttar Pradesh to the State of Madhya Pradesh.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed shifting of Registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor Complaint Form or cause to be delivered or sent by registered post or by filing objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2, 2nd Floor, Pt. Deen Dayal Antodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days from the date of publication of this Notice with a copy to the Applicant Company at its registered office at the address mentioned above.

For and on behalf of Global Green  
 ARC BUILDINGHOPE PRIVATE LIMITED

Place: New Delhi  
 Date: 08.05.2019

(VINOD KUMAR)  
 Director  
 DIN: 07865554

**PUBLIC NOTICE**

(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)

Before the Regional Director,  
 Northern Region,  
 Ministry of Corporate Affairs,  
 Pt. Deen Dayal Antodaya Bhawan,  
 CGO COMPLEX,  
 NEW DELHI - 110003

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of SETTING ABROAD SERVICES PRIVATE LIMITED having its registered office at HOUSE NO. 118 TOP FLOOR, SECTOR-13 CHANDIGARH

**Petitioner**

**SHIPPING OF REGISTERED OFFICE FROM THE UNDER TERRITORY OF CHANDIGARH TO THE STATE OF PUNJAB**

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to the Central Government through the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on 09th March, 2019 to enable the Company to shift its Registered Office from the State of Chandigarh to the State of Punjab.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor Complaint Form or cause to be delivered or sent by registered post or by filing objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2, 2nd Floor, Pt. Deen Dayal Antodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days from the date of publication of this Notice with a copy to the Applicant Company at its registered office at the address mentioned below.

For and on behalf of Global Green  
 ARC BUILDINGHOPE PRIVATE LIMITED

Place: New Delhi  
 Date: 08.05.2019

(VINOD KUMAR)  
 Director  
 DIN: 07865554

**आन्धा बैंक ANDHRA BANK**

M-33 First Floor Andhra Bank SARM Bazar, Connaught Circle, New Delhi-01

**NOTICE TO THE BORROWER INFORMING ABOUT SALE (30 DAYS NOTICE) (RULE 62(8)(6) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002)**

From: Prabhat Ranjan Singh, Authorized Officer, Andhra Bank Under ACT 54 OF 2002, SARM Bazar, New Delhi

To: Borrower: M/s Synthetics Pvt. Ltd  
 Repy by Directors situated at Village Seera, Rahon Road, Ludhiana.  
 Directors/Guarantors/Mortgagors: (a) M/s. Gurinder Kaur Parmar Wo Jasjit Singh, R/o 4/09, Model Town, Ludhiana - 141001.  
 (b) Ms. Ansha Parmar Wo Karam Singh, R/o: No. 278R, Model Town, Ludhiana, 141001.  
 (c) Ms. Sakshi Singh Wo Anshu Parmar, R/o: No. 278R, Model Town, Ludhiana, 141001.  
 (d) M/s. Sarda Singh, S/o. M. Jagmohan Singh, R/o: 4/09, Model Town, Ludhiana, 141001.  
 (e) M/s. Sigma Synthetics Pvt. Ltd. Repy by its Directors situated at Village Seera, Rahon Road, Ludhiana.

Sale: Sale of property belonging to you for realization of amount due to Andhra Bank under the SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT (54 OF 2002), whereas you have defaulted to pay the amount due from you in spite of demand made by me through Demand Notice No. 192 dated 03.05.2019, as per certificate.

Even after taking possession of the property/machinery, you have not paid the amount due to Andhra Bank. As such, it has become necessary to sell the below mentioned property/machinery above the Reserve Price of Rs. 25,00,000/- (Rupees Two Crores Twenty Five Lacs Only) for Factory Land & Building & the Reserve Price of Rs. 20,00,000/- (Rupees Two Crores Only) for Residential House by inviting tenders by public auction-auctioneery Private. The date and time of auction and the details of the service provider shall be informed through a Sale Notice which will be issued separately, and the property would be sold to the person who offers highest price.

Since, the property may be sold by Private Sale also or obtaining quotations from the persons also, subject to terms and conditions acceptable to the bank.

If you have any such proposal of selling the property to any person by private sale or by getting quotation, the same may be communicated to me within 7 days from the date of receipt of this letter/notice.

Falling which, it will be construed that you have no such proposal and I will proceed forthwith, with sale of property by inviting tenders by public auction-auctioneery Private. Further, please take notice that if you pay the amount due as specified in the Demand Notice dated 03.10.2016 with subsequent interest thereon along with cost and expenses incurred by the bank 90 days on or before the date of publication of notice for public auction or inviting quotations or tender from public or private tender by tender by way of lease assignment or sale of secured assets, no further action shall be taken for sale of the property mentioned in the schedule.

**SCHEDULE OF PROPERTY**

1. Residential Land Building belonging to SMT ASHA PHARMAR & W/O KARAM SINGH & MR. SUREPREET SINGH S/O ASHA PHARMAR (Owner), situated at BEARINGS MUNICIPAL NO. B-07A/373, HOUSE NO. 278R, MODEL TOWN, VILLAGE NORTHERN LUDHIANA, MEASUREMENT 450 SQ. YARDS and sub-plot No. 278R, Model Town, Ludhiana - 141001. North- Road, South- Sh. Nareesh Kumar. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika no. 3050)

2. Factory Land Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika no. 3050)

3. Factory Land Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

4. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

5. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

6. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

7. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

8. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

9. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

10. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

11. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

12. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

13. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

14. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

15. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

16. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

17. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

18. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

19. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

20. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

21. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

22. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

23. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

24. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

25. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

26. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

27. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

28. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

29. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

30. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

31. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

32. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

33. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

34. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

35. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

36. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

37. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

38. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

39. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

40. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Ludhiana. (Sale date: 19.05.1987 bearing Wasika No. 3050)

41. Factory Land & Building belonging to M/s Sigma Synthetics Pvt. Ltd. measuring 26x11M comprised of Khata No. 123141, Khata No. 54777, 8 as entered in the Jamabandi for the years 1981-1982 situated at Village Seera, hadast No. 72, Tehal and Dist- Lud



